



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1944 (श10)
(सं० पटना 412) पटना, बुधवार, 29 जून 2022

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

28 जून 2022

सं० 7 नि० (विधि-2) उप० संशो०-06-2014/4953—न्यायालय, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना विविध वाद संख्या—02/2019/2021 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2021 (सचिव, बिहार सहकारी समिति अधिकरण, पटना के द्वारा निर्गत ज्ञापांक 217 दिनांक 24.11.2021) के आलोक में बिहार प्रांतीय मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहयोग परिसंघ लि० मीन भवन, बोरिंग केनाल रोड, पटना को बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-44(1)(घ) के तहत निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पर्यवेक्षण में विघटित करने का आदेश दिया गया है।

चूँकि अधिकरण द्वारा उक्त समिति के विघटन हेतु आदेश पारित किया गया है। अतएव उक्त सहकारी समिति के कार्यकलापों के परिसमापन के लिए परिसमापक नियुक्त किया जाना अपेक्षित है।

अतः मैं बैद्यनाथ यादव, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-45(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना को बिहार प्रांतीय मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहयोग परिसंघ लि०, मीन भवन, बोरिंग केनाल रोड, पटना का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-46, 47 एवं धारा-48 में निहित प्रावधानानुसार उक्त समिति के परिसमापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
बैद्यनाथ यादव,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 412-571+25-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>